

LEADING MANUFACTURERS AND EXPORTERS

Regd. Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave Baja Garden, New Delhi-110027 CBNO. 178899011995910084005

Date :- 04/09/2022

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Sub: Submission of the newspaper clipping under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and\_ Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 we hereby enclose copies of the Notice for the attention of the Shareholders of the Company published on 04th September, 2022 in Financial express (English) and Jansatta (Hindi) Newspaper in respect of information regarding 27<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 05:30 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

We request you to kindly take the same on records.

Thanking you

Yours faithfully

For NEW LIGHTDAPPARELS LIMITED

Director

DIN: 01112423

CIN: L51909DL1990PLC041701 Tel. No: 9810337978 Email: oscar@oscar-globall.com, Website: www.oscar-global.net

NOTICE OF 31ST AGM THROUGH VC/OAVM NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Oscar Global Limited will be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact businesses set out in the Notice of the AGM dated 12th August, 2021. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2022 has been separately sent in electronic mode to all those Members. whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants. The Annual Reports and a copy of the Notice of AGM is also available on the website of the Company (www.oscar-global.net) and on the website at www.evoting.nsdl.com. The electronic dispatch of the Notice of AGM and Annual Report has been completed on September 02, 2022. E-Voting:

"NSDL") for facilitating remote e-voting services. The details pursuant to the provision of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder: Date of completion of sending of Notices : September 02, 2022

The Company has entered into an arrangement with National Securities Depository Limited

Date and time of commencement of Voting through electronic means: Friday, 24th September, 2022 at 09:00 A.M

(3) Date and time of end of Voting through electronic means: Sunday, 26st September, 2022 at

Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M on Sunday, 26th

(5) Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 16th September

Members may participate in the Annual General Meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depository as on the cut-off date only shall be entitled to avail

the facility to remote e-voting as well as voting in the general meeting. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after aforesaid date and time for voting; b) Members participating in the 31st AGM and who had not caste their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during 31st AGM.

Any person who acquire shares of the company and become member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 16th September, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or

(10) The Notice of 31st AGM is available on the Company's website www.oscar-global.net and on www. evoting.nsdl.com

(11) For electronic voting instruction, shareholders may go through the instruction in the Notice of 31st AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting User Manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com o call on toll free no .: 1800-222-990.

(12) Members holding shares in demat/ physical form are requested to update their email addresses and PAN details (self-attested copy) with Indus Portfolio Private Limited, Registrar and Transfer Agent/ respective Depository Participant.

(13) The results of remote e-voting and e-voting at AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website and website of Bombay Stock Exchange.

In Compliance of applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Company encourages the Members to provide / update their e-mail address to enable the servicing of notice(s). documents(s)/ Annual Report(s) electronically. The request for updation of records for members holding shares in physical mode should be sent to the Company or RTA and to the Depository Participant in case of members holding shares in dematerialized mode. By order of the Board of Directors

Oscar Global Limited Karan Kanika Verma (Chairman & Managing Director)

DIN: 00034343

Place: New Delhi

Date: 03.09.2022

Place: New Delhi Date: 03.09.2022

STEEL STRIPS WHEELS LIMITED

CIN: L27107PB1985PLC006159

Regd Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali (Pb.) Tel: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834

Email: ssl ssg@glide.net.in. Website: http://www.sswlindia.com

NOTICE OF THE 36th ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE, DIVIDEND AND REMOTE E-VOTING INFORMATION** Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 11.00 a.m. at its Registered Office at Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Derabassi, Distt. S.A.S Nagar, Mohali (Pb.) 140506 to transact the businesses as set forth in the Notice of the said AGM. Annual Report for FY 2021-22 along with Notice of the AGM and the explanatory statement under section 102 of the Companies Act, 2013 (Act) in respect of ordinary and special business have been couriered/posted/ e-mailed to the members individually at their registered addressle-mail Ids. The dispatch of Annual Report along with Notice of AGN has been completed on September 3, 2022. The same is also available on the Company website at http://www.sswlindia.com, websites of stock exchanges viz BSE Ltd. at http://www.bseindia.com and NSE Ltd. at http://www.nseindia.com. Further, Notice of the AGM is available on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in, the agency engaged for providing remote e-voting facility at the AGM. Book Closure and Dividend: Pursuant to Section 91 of the Act read with relevant rules

framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive), for the purpose of AGM and for ascertaining the list of members who would be entitled to receive final dividend of Rs. 3.75/- per equity share of face value of Rs. 5/- each for FY 2021-22, if approved by the members at the AGM of the Company. As directed by SEBI, the dividend will be paid through electronic mode to the members who have updated their bank account details. In the event the Company is unable to pay dividend to any member by electronic mode, due to non-availability of the Bank account details, the Company shall dispatch the dividend warrant/cheque/demand draft to such member at the registered address by post. Tax on Dividend: As per Income Tax Act, 1961 amended vide Finance Act, 2020. mandates that dividend (s) paid or distributed by a company after 01.04.2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct TDS at the time of payment of dividend at the applicable tax rates. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. The shareholders are requested to submit signed documents/declarations in accordance with applicable provisions of Income Tax Act, 1961 at ssl ssg@glide.net.in. For more details, please refer Note no. 6 mentioned

Remote e-voting: In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time, the Company is pleased to provide its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions mentioned in the AGM Notice by electronic means through "Remote e-voting" services, provided by LIIPL through their e-voting website "InstaVOTE"

The remote e-voting shall be open from September 27, 2022 from 9.00 a.m. (IST) to September 29, 2022 to 5.00 p.m. (IST) (both days inclusive). The remote e-voting shall not be permitted beyond the said time and the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter.

The Members, whose names will appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners on the close of the day on Friday, September 23, 2022 (cut-off date), are only entitled to receive final dividend and to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM on the Resolutions set forth in Notice of AGM. Please read the instructions given under Note no. 20 in the Notice of the AGM before exercising the vote. The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM and

the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through ballot/polling paper. The shareholders can opt of only one made of voting i.e. remote e-voting or physical polling at the meeting. In case of voting by both the modes, vote casted through remote-e-voting will be considered final and voting through physical ballot will not be considered. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote

Any person who becomes member of the Company after despatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with InstaVOTE for remote e-voting, he can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Members who have not updated their KYC details and e-mail addresses with the Company are requested to update the same by following the process mentioned below:

(I) For members holding shares in physical mode, SEBI vide its Circular dated 03.11.2021 has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination. Members holding shares in physical form are, therefore, requested to submit their PAN, KYC details including Bank details and Nomination details to LIIPL at Noble Heights 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel: 011-49411000 e-mail ID: delhi@linkintime.co.in by sending a duly filled Form ISR-1 and other relevant forms as available on Company's website at https://sswlindia.com/investors/investor-servicerequest/ and LIIPL's website at https://linkintime.co.in/.

(ii) Members holding shares in dematerialized mode are requested to updated their complete KYC details including Bank details and Nomination details with their Depository In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting, please refer

the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call at- Tel: 022-49186000.

For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED

Place: Chandigarh Date: 03.09.2022

(Shaman Jindal) Company Secretary

## Planetcast Media Services Limited

CIN: U64200DL1996PLC078558 Regd. Office: 1121, Hernkunt Chambers, 11th Floor, 89 Nehru Place, New Delhi-110019 Phone: 011-26471115, Email: pmsl@planetc.net, Website: www.planetc.net PUBLIC NOTICE

This is to inform that Planetcast Media Services Limited intends to convene 26th Annual General Meeting of the members through video conference on Friday, 30th September,

2022 at 11:00 A.M., in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 read with the General Circulars No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021 and 05th May, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs, and for the said purpose we shall send notices to all our members by e-mail only, after 3 days from the date of publication of

The notice of the 26th Annual General Meeting along with necessary details and documents will be available on the Company's website (i.e. www.planetc.net) The members may contact the undersigned on cs@planetc.net or +919416422201for

getting their e-mail addresses registered for receiving the notice, participation and voting in the 26th Annual General Meeting. For Planetcast Media Services Limited Date: 02/09/2022

Place: Noida

Nikhil Midha (Company Secretary)

### **NEW LIGHT APPARELS LIMITED** CIN: L74899DL1995PLC064005

Regd. Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110 027 **Ph. No.:** +91 11-4561 3885; **E-Mail ID:** newlight.apparels@gmail.com **★Website:** www.newlightapparels.com

NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 ('Act'

and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars'), **NOTICE** is hereby given that the Twenty-Seventh (27<sup>th</sup>) Annual General Meeting ('AGM' ) of the Members of **New Light Apparels Limited** ('Company') will be held on Friday, the 30th September, 2022 at 05:30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2021-22 ('Annual Report') has been sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent ('RTA') / Depository Participant ('DP'). ■ The aforesaid documents are also available on the Company's website at https://www.newlightapperals.com, website of the Stock Exchanges i. e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

The company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their vote on all businesses contained in the notice through the e-voting platform of National Securities Depository Limited ('NSDL'), besides providing a facility for voting by electronic means in the AGM. The remote e-voting shall begin at 09.00 a.m. (IST) on Tuesday, September 27, 2022 and end at 05:00 p.m. (IST) on Thursday, September 29, 2022. The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter.

Mr. S. K. Jha, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing /Conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI LODR Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 for the purpose of the AGM of the Company.

> For NEW LIGHT APPARELS LIMITED (PRABHA GAUTAM)

By order of Board of Directors

Membership No: A63180 **Company Secretary & Compliance Officer** 

# STARLIT

STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED Regd. Off: A-1/51, LGF, Safdarjung Enclave New Delhi 110029 CIN: L37200DL2008PLC174911, Ph. No. 011-26102670

Website: www.starlitpower.com, Email: secretarial@starlitgroup.net,

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that the Fourteenth (14th) Annual General Meeting ('AGM' or "Meeting") of the Members of Starlit Power Systems Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 10:00 a.m. (IST) through Video Conference / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 read with latest being 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13 May, 2022, the Company has sent the Notice of the 14th AGM along with the Annual Report 2021-22, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('Registrar') and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 of the Company will be available on the website of the Company a www.starlitpower.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Wednesday, 21st. September, 2022 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged CDSL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

The remote e-Voting facility would be available during the following period: Commencement of remote e-Voting | Sunday, 25th September 2022 (9.00 a.m. IST)

Conclusion of remote e-Voting Tuesday, 27th September 2022 (5.00 p.m. IST) The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 27th September, 2022. The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-voting facility at the AGM. The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity

share capital of the company as on the cutoff date i.e. 21st September, 2022. The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 21st September, 2022, may obtain the login Id and Password by sending a request to helpdesk@cdslindia.com or secretarial@starlitgroup.net. Members are requested to login at http:// www.evotingindia.com/ by using the remote login credentials. The link for electronic participation through VC/OAVM during the meeting will be available in shareholder. members login portal where the EVSN of the company will be displayed. The facility ent of Proxies by Members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM.

A person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only Ms. Dasvinder kaur. Proprietor. D.K. Chawla & Co., Company Secretary-in-Practice

(C.P. No. 15232), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33. Further, Members may also contact with Mr. Mukesh Kumar, Manager, Big share Services Pvt. Ltd. RTA at mukesh@bigshareonline.com or on Telephone No.: 011-42425004. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the

meeting by posting the same on the website of the Company (www.starlitpower.com) and by filing with the BSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company, Members who have not registered their email-id are requested to register the same by

following the procedure given below:

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Big share Services Pvt. Ltd. at mukesh@bigshareonline.com providing Folio number Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN( Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR ( Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e.

Delhi-110019 along with letter mentioning folio no. if not registered already.) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses by contacting their respective the Depository Participants with whom they maintain their Demat accounts.

Big share Services Pvt. Ltd., T 302, Kushal Bazar 32-33, Nehru Place, New

Book Closure:

Date: 03.09.2022

Place: New Delhi

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 14th AGM. All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or pose

questions shall register themselves on or before 21st September, 2022 with their Folio no. DP ID/Client ID, E-mail id and Mobile no. at the e-mail id of the Company i.e. secretarial@starlitgroup.net

For Starlit Power Systems Limited Piyush Garg

Company Secretary & Compliance Officer M.No. A62134

## MARBLE CITY INDIA LIMITED

Formerly Known as P G Industry Limited) Regd. Off: A – 30, S – 11, Second Floor, Kailash Colony, New Delhi – 110048

CIN: L74899DL1993PLC05642 www.pgil.com pgindustryltd@gmail.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING TWENTY NINETH ANNUAL GENERAL MEETING AND E - VOTING INFORMATION

Pursuant to section 96 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 04:00 P. M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") to transact the businesses as contained in the Notice of the aforesaid meeting. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, Notice is hereby given

that Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remained closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. The Notice along with Annual Report 2021 – 22, etc. has been sent through Electronic Mode to the

members whose Email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The date of completion of email of the notices to the shareholders is September 04, 2022. The Notice of the AGM and Annual Report are available at the Company's website – www.pgil.com and website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed as well as in the website of National Securities Depository Limited (NSDL) – https://www.evoting.nsdl.com.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2021-22 and login details for

attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning folio

no. if not registered already. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote(s) by electronic means on all the resolutions as set forth in the Notice. The Company has engaged the services of NSDL to provide e-voting facility. The remote e-voting period will commence on 24th September 2022 (09:00 A. M.) to 26th September, 2022 (05:00 P. M.).

During this period, Members of the Company may cast their vote(s) electronically. The remote e voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the same cannot be changed subsequently. The voting rights of the members shall be in proportion to their shareholdings as on the Cut-off date (Record Date) i.e. 20th September, 2022. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th September, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info@masserv.com or pgindustry93@gmail.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 29th Annual General Meeting and E-voting user manual for Shareholders available at https://www.evoting.nsdl.com or send a request to evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means, the members may contact to Mr. Davender Kumar, Company Secretary, Marble City India Limited, A - 30, S - 11, Second Floor, Kailash Colony, New Delhi – 110048; Email: pgindustry93@gmail.com; Tel: 011 – 45872777. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or at A.G.M through e-voting. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Vaibhav Sharma, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to

scrutinize the voting and remote e – voting process in a fair and transparent manner. The results of e-voting will be announced by the Company after the A.G.M. and will also be available on its website i.e. www.pgil.com and to the Stock Exchanges where the Company's Shares are

For Marble City India Limited **Saket Dalmia** (Managing Director)

Place: New Delhi Date: 04-09-2022

DIN: 00083636



### VLS FINANCE LIMITED VLS Regd. Office: - First Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110 020 CIN: L65910DL1986PLC023129, email: vls@vlsfinance.com,

Website: www.vlsfinance.com Ph: 011-4665 6666, Fax: 011-4665 6699 Public Notice for kind attention of the members

This is to inform that in view of the continuing conditions of COVID-19 pandemic, the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of VLS Finance Ltd. ('the Company') will be convened through two-way Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated 13/01/2021 and No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively referred to as 'SEBI Circulars'). The 35th AGM schedule is as follows:

Day, Date and Time of Annual General Meeting	7	Friday, 30/09/2022 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM')
Day and Date of Book Closure	3	Friday, 23/09/2022 to Friday, 30/09/2022 (both days inclusive)
Cutoff Date for entitlement of dividend and e-voting		Thursday, 22/09/2022
Date of remote e-voting	9	Tuesday, 27/09/2022 at 9.00 a.m. till Thursday, 29/09/2022 upto 5.00 p.m.
E-voting at AGM		Starting at Commencement of AGM and will end after 15 minutes of conclusion of AGM.

Kindly note that no physical copy of Annual Report 2021-2022 will, therefore, be sent sou

moto by the Company to the members either before or after the AGM and all communications from the Company relating inter-alia to AGM shall be made in electronic mode viz. email etc. The Company has approached National Securities Depository Ltd. ('NSDL') for providing e-voting facility for the ensuing AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes its member after dispatch of the AGM Notice or whose email ID is not registered/ updated with the Company and holding shares as of cut off date may obtain the Login ID and Password by sending a request at email Id evoting@nsdl.co.in or to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company at email ID- investor.services@rcmcdelhi.com or mailing at RTA's office address. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions stated in the Notice of 35th AGM and in case of any queries connected with electronic voting; Shareholders may refer the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com. Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cutoff date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through e-voting at AGM.

The e-copy of the notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 of the Company will be available on or before 8th September, 2022 on the website of the Company at www.vlsfinance.com, the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com, and on the website of the concerned stock exchanges www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com. The business to be transacted through electronic means both ordinary and special have been set out in the notice convening 35th AGM.

Members holding shares in physical form are advised to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form had been prohibited by the SEBI w.e.f 01/04/2019. Further, they are also requested to register/ update their Email ID, Bank mandate, contact number, change in address (if any) enclosing self-attested proof thereof with the Company by writing to the Company at the registered office or its RTA in prescribed form. Above details along with requisite documents can also be sent electronically to the Company's dedicated investor services email ID: hconsul@vlsfinance.com or RCMC Share Registry Pvt. Ltd.- RTA at email ID: mdnair@rcmcdelhi.com or investor.services@rcmcdelhi.com followed by physical documents. The up-dated Bank details will enable electronic credit of dividend without any delay to the members besides compliance of SEBI's directive dated 03/11/2021.

Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants ('DP') for updating the Email ID, Bank Mandate, contact number,

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company/RTA by sending documents in prescribed form through e-mail followed by physical copy thereof at the earliest as specified in the notice. Any delay/non updation of PAN with the Company may result in deduction of tax at a higher rate on dividend and other benefits, as and when declared by the Company. The members are requested to periodically check the website of the Company for any updates.

It may be noted that in absence of email ID it would not be possible for the Company to send any communication relating to forthcoming AGM inter alia relating to the link to join the AGM to be held through Video Conference) OAVM, to such member. For any clarification, please contact Shri Ramesh C. Pandey-Group Head-Secretarial or the undersigned at +91-11-4665 6666. The above communication is intended for information and benefit of all members besides

complying with applicable directives. For VLS Finance Ltd.

Place: New Delhi

Dated : 2-9-2022

M. No. - A11183 New Delhi

H. Consul

Company Secretary

greet...

केनरा बेंक 🛕 Canara Bank Old Gt Road, Opp. Veterinary Hospital Hodal, Faridabad, Haryana - 121 106

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 13.04.2022 calling upon the borrower M/s Hodal Dal Mill to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 58,20,505.16 (Rupees Fifty Eight Lacs Twenty Thousand Five Hundred Five and paisa Sixteen Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, ead with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 29th day of August of the year 2022. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 38,93,321.80 (Rupees Thirty Eight Lacs Ninety Three Thousand Three Hundred Twenty One and paisa Eighty Only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect

of time available, to redeem the secured assets. Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property measuring 6K and 1M consisting of Khasra/Khata no.147/176 Khasra No. 702(10-3), 703(8-1), khata/khatoni no. 139/162, khasra no 702(10- 703(8-1) Railway Road, Hodal with in the registration sub-district Hodal and district Palwal. Bounded: - North by: Railway Road, South by: Residetial Property/Harijan Colony, East by: Plot of Dau Dayal Ashok Kumar, West by: Bagichi Merolian.

Date: 04-09-2022 Place: Hodal

Authorised Officer, Canara Bank

INDIAN OVERSEAS BANK (GHAZIABAD BRANCH) 2, Navyug Market. Ghaziabad-201001 Email: iob0457@iob.in

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 09.05.2022; Demand notice Paper Publication dated 16.06.2022 Calling upon the borrower/ mortgagors/ guarantors M/s V.D. Electricals (Borrower) Address Shop No. 62-A, Kallupura, Ambedkar Nagar Maliwara Chowk, Ghaziabad 201001, U.P. Mr. Nitin Sharma (Partner and guarantor) Address 1/4361, Ashok Marg, Ram Nagar Extn., Mandoli Road, Shahdara, East Delhi-110032, Mrs. Neelima Vashisht (Partner and Guarantor) Address: 7/588, Jain Mandir Gali, Shahdara, North East Delhi, Delhi-110032; Mr. Shyam Sunder Vashist (Guarantor and husband of Mrs. Neelima Vashist) Address: 7-588, Jain Mandir Gali, Shahdara, North East Delhi, Delhi-110032

within 60 days from the date, of receipt of the said notice. (2) The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on

(3) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not possession of Rs. 7,29,692.22 (Rupees Seven Lakhs Twenty-Nine Thousand Six Hundred Ninety-Two and PaisaTwenty-Two only) as on 02.04.2022 payable with (4) The Borrower attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

1. Mortgage of | Equitable mortgage of the Flat bearing No. 210-C measuring 28.56 sq. mtrs., Third Floor "Kamna Apartment" Block V. immovable Vaishali Ghaziabad owned by Mrs. Kavita Sonak W/o Mr. Manoj property owned Sonak whose boundaries are as below: East: 20' wide road. by Mrs. Kavita

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Nature of Security

Distress sale value: 10.05,732.50 as per Valuation report dated 25.08.2020 by M/s Sahu and Associates

Particulars of Securities

Date: 01.09.2022 Authorised Officer. Place: Ghaziabad Indian Overseas Bank

**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST** (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

**RELEVANT PARTICULARS** LARK LOGISTICS PRIVATE LIMITED Name of the corporate debtor Date of Incorporation of Corporate Debtor 31.08.2006 Authority under which Corporate Debtor is Registrar of Companies-Delhi incorporated / registered Corporate identity number / limited liability U63090DL2006PTC152804

Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor Nehru Place. New Delhi-110019, India Principal Office: Not Applicable Insolvency commencement date in respect of 20.06.2022 Corporate Debtor (copy of order was received on 23.06.2022) Date of invitation of expression of interest 04.09.2022

Eligibility for resolution applicants under In the 2 nd (Second) meeting of Committee section 25(2)(h) of the Code is available at: Creditors, the COC Members did not prescrib any eligibility criteria under Section 25(2)(h) of th Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and an interested bidder can file their expression

section 29A are available at: cirp.larklogistics@gmail.com 10. Last date for receipt of expression of interest 19.09.2022 11 Date of issue of provisional list of 29.09.2022

provisional list 13 Date of issue of final list of prospective 14.10.2022 resolution applicants 14. Date of issue of information memorandum, 04.10.2022 evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants

Manner of obtaining request for resolution Will be shared in electronic form with the eligible plan, evaluation matrix, information prospective resolution applicants. memorandum("IM") and further information 16 Last date for submission of resolution plans 03.11.2022 Manner of submitting resolution plans to

resolution professional Estimated date for submission of resolution 05.12.2022 plan to the Adjudicating Authority for approval **Pramod Kumar Gupta** Name and registration number of the

with the Board Address and email to be used for correspondence with the resolution Khas, South New Delhi, National Capital Territory of Delhi-110016

E-mail: cirp.larklogistics@gmail.com 22. Further Details are available at or with Further details can be sought by writing an ema at cirp.larklogistics@gmail.com

More specifically the detailed EOI can be sough from the Resolution Professional by writing a email at cirp.larklogistics@gmail.com The submission of expression of interest should be in conformity with Regulation No. 36A(7)

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. 23 Date of publication of Form G 04.09.2022

Lark Logistics Private Limited (Under CIRP Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 AFA Validity: AFA: AA1/12075/02/231222/103676; Validity 24.12.2021 to 23.12.2021 B-1/10, Lower Ground Floor, Hauz Khas, Delhi ,110016 Phone No.: +91-9810276808

(APPENDIX IV) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [(Rule 8(1)] The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under

Mrs. Kavita Saunak (Guarantor and mortgagor) Address : W/o Mr. Manoj Kumar Saunak E-383, LohiaGali No. 4, East Babarpur, Shahdara, East Delhi-110032; and Mr. Manoj Kumar Saunak (Guarantor) Address: E-838, Lohia Gali No. 4, East Babarpur, Shahdara, East Delhi-110032, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 7,29,692.22 (Rupees Seven Lakhs Twenty Nine Thousand Six hundred Ninety Two and Paise Twenty Two only) as on 02.04.2022 with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization

this 1st day of September of the year 2022

to deal with the property and any dealings with the property will be subjects to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount and interest thereon at contractual rates and rests as agreed, date of payment less repayment, if any, made after issuance of Demand Notice. The Dues payable as on the date of taking further interest at contractual rates and rests, Charges etc., till date of payment.

West: Flat No. 223 C, North: Flat No. 211 C, South: Flat No. 209 C, Sonak W/o Mr. Fair market value= Rs. 11,17,480.55 Manoj Sonak

Name of Owner: Mrs. Kavita Sonak W/o Mr. Manoj Sonak

FORM G

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

identification number of corporate debtor Registered office: 519, 5th Floor, 12 Osian Building,

interest subject to the condition of Applicable law Available on the website of IBBI Norms of ineligibility applicable under (https://www.ibbi.gov.in/legal-framework/act). Please refer to the latest version of Insolvence and Bankruptcy Code, 2016. Further clarification can be sought by writing an email

prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections to 04.10.2022

As per Clause No. 1.7.9 of the Request For Resolution Plan RFRP or else as per column no. 15 above.

Reg.No. IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 resolution professional 20 Name. Address and e-email of the Address: B-1/10, Lower Ground Floor, Hauz Khas ,South,New Delhi, National Capital resolution professional, as registered Territory of Delhi- 110016 E-mail: variety.financial@gmail.com Address: B-1/10. Lower Ground Floor, Hauz

professional

Date: 04.09.2022 Place: Delhi **Pramod Kumar Gupt** Resolution professional

Email: variety.financial@gmail.com

financialexp.epap.in

स्थानः नोएडा

Advik

एडविक कैपिटल लिमिटेड

CIN: L65100DL1985PLC022505

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 84, खसरा नंबर, 143/84, भूतल, विस्तारित लाल डोरा,

कंझावला, दिल्ली -110081.

फोन नंबर: 011-25952595, वेबसाइट: www.advikgroup.com,

ईमेल: advikcapital@gmail.com, cs@advikgroup.com

एतद्दवारा सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैटक ("एजीएम

मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स

(वीसी/ओएवीएम)सुविधा के माध्यम,कंपनी अधिनियम,2013 ('अधिनियम'), के प्रावधानों के अनुपालन

में, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, उसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या

02/2021 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य सभी लागू कानूनों और

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी,

2021 के अनुसार, 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए

उक्त परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं

वार्षिक आम बैठक की सुचना शनिवार, 3 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन

सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ

पंजीकृत हैं।। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.advikgroup.com पर और स्टॉक एक्सचेंज

की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनडीएसएल की वेबसाइट

इसके साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर बुधवार, 21

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा

संशोधित के प्रावधानों के अनुसार, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम

2015 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के विनियमन 44 के अनुसार कट-ऑफ तिथि,

यानी 20 सितंबर, 2022 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ई-वोटिंग

प्लेटफॉर्म के माध्यम से 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से

अपना वोट डाल सकते हैं। ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश 37वीं एजीएम की सूचना

1. आम बैठक में इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि

2. मैसर्स कुमार जी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीओपी: 7579) को ई–वोटिंग प्रक्रिया

3. ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर कंपनी की वेबसाइट

4. रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) रे

शुरू होगी और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी।

5. जिन व्यक्तियों ने शेयर अर्जित किए हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन

गए हैं, वे हेल्प डेस्क नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर नेशनल सिक्योरिटीज

डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या

3. जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा

अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के

7. सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी

वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम मे

8. जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी /आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं उन सदस्यों के

यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न

या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध अक्सर

पछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य") और ई—वोटिंग मैनअल को देख सकते हैं या

बोर्ड के आज्ञानुसार

वीरेंद्र कुमार अग्रवाल

डी आई एन : 00531255

indianexpress.com

I arrive at a conclusion

not an assumption.

Inform your opinion with

♦ The Indian EXPRESS

detailed analysis.

प्रबंध निदेशक

कृते एडविक कैपिटल लिमिटेड

www.advikgroup.com पर डाल दिए जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया

सितंबर, 2022 से मंगलवार, 27 सितंबर 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

आयोजित की जाएगी।

में निहित हैं।

मंगलवार 20 सितंबर, 2022 है।

जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें।

दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

evoting@nsdl.co.in पर एक ईमेल लिखें।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 4 सितंबर, 2022

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

इस संबंध में, सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि:

के संचालन के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साथ-साथ मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम नोटिस में उपलब्ध है।

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

Capital Limited

## 4 सितंबर, 2022

(कम्पनी सचिव)

प्लेनटकास्ट मीडिया सविसेस लिमिटेड CIN: U64200DL1996PLC078558

पंजी. कार्यालय: 1121, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 11वां तल, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन: 011-26471115 | Email: pmsl@planetc.net | Website: www.planetc.net सार्वजनिक सूचना

एतदहारा सचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021

के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में प्लेनेटकास्ट मीडिया सर्विसेस लिमिटेड सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम सभा 30 सितम्बर, 2022, शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वा. में विडियो कान्फ्रेंस द्वारा आयोजित करने हेतु इच्छुक है तथा उस प्रयोजन से हम अपने सभी सदस्यों को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 दिनों के बाद केवल ईमेल द्वारा सूचना भेजेंगे। आवश्यक विवरणों तथा दस्तावेजों के साथ 26वीं वार्षिक आम सभा की सूचना कम्पनी की वेबसाईट

(www.planetc.net) पर उपलब्ध होगा।

सूचना प्राप्त करने तथा 26वीं वार्षिक आम सभा में भागीदारी तथा मतदान के लिये अपना ईमेल पता पंजीकृत कराने के लिये सदस्य cs@planetc.net पर अथवा +919416422201 पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्लेनेटकास्ट मीडिया सर्विसेस लिमिटेड के लिये तिथि: 2.9.2022 निखिल मिधा

> न्य लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड CIN: L74899DL1995PLC064005

राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 \* **Ph. No.:** +91 11-45613885; \* **E-Mail ID:** newlight.apparels@gmail.com \* Website: www.newlightapparels.com

पंजी. कार्यालयः जीसी-29, बेस्मेन्ट, शिवाजी एन्क्लेव,

### 27वीं वार्षिक आम सभा तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना <sup>न</sup>

सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, सर्क्युलर नं. 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 (सामूंहिक रूप से 'एमसीए सर्क्युलर्स' वर्णित) तथा सेबी सर्क्युलर SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 तिथि 13 मई, 2022 ('सेबी सर्क्युलर') (एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर सामूंहिक रूप से ''सर्क्युलर्स'' वर्णित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागु होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की सत्ताईसवीं (27वीं) वार्षिक आमसभा ('एजीएम') शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 5.30 बजे अप. (आईएसटी) में विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') द्वारा एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

सर्क्युलर्स के अनुपालन में एफवाई 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट) के साथ एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धित से उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट https://www.newlightapperals.com, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध

यह कम्पनी एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सचना में शामिल सभी व्यवसायों को मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी।

श्री एस.के. झा कार्यरत कम्पनी सचिव को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/संचालन करने के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन

42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी की एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से कृत्ते, न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड

(प्रभा गौतम) सदस्यता सं.: A63180

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 3.9.2022

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मवाना शुगसे लिमिटेड (सीआईएन: L74100DL1961PLC003413) पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कीर्ति महल, 19,

राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110125 फोन नंबर: 011-25739103, फैक्स नंबर: 011-25743659 ई-मेल : corporate@mawanasugars.com, वेबसाइट : www.mawanasugars.com

58वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना के प्रेषण के समापन के संबंध में सुचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉपोरेंट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या

14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 के साथ पठित 21/2021 और 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 ('एमसीए परिपन्न') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं यथासंशोधित सेबी (सुचीबद्धता विनियम एवं उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना मवाना शुगर्स लिमिटेड ('कंपनी') की 58वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सदस्यों को एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शुक्रवार, 02 सितंबर, 2022 को पूरा कर लिया गया। वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार

और ट्रांसफर एजेंट, मास सर्विसेज लिमिटेड के पास उपलब्ध थे। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए एजीएम की सूचना में उनकी ईमेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान की

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 91 के अनुसार और सेबी (सूचीबद्धता विनियम एवं उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार एतद्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि आगामी एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 26 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 एवं सचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को कम्पनी की एजीएम आयोजित करने की सुचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा (रिमोट ई-वोटिंग) और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। अधिनियम के अनसार विवरण निम्नानसार है:

• कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 तक भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ('पात्र सदस्य') कंपनी की एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सविधा का उपयोग करके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं:

रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी; • रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी;

• रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा

किसी संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या दुबारा वोट डालने की

• सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में दोबारा वोट नहीं दें सकेंगे:

• एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है. एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

• केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग के

साथ-साथ साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा: • यदि व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, एजीएम की नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन

करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है: • एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com और एनएसडीएल की

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। किसी पूछताछ या ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी जिज्ञासा के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') तथा e-voting user manual for Shareholders का सन्दर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या श्री अमित विशाल के पास evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

बैठक में 30% की दर से अर्थात रु. 10/- प्रत्येक के रु. 3.00/- प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश, यदि बैठक में अनुमोदित होता है तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम गुरुवार, सितंबर 22,2022 ('रिकॉर्ड तिथि') की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे जो यथाप्रयोज्य स्रोत पर कर की कटौती के अध्यधीन होंगे। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों कर योग्य होगी

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी

और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यदि कोई हो, के बारे में अधिक जानकारी के लिए 58वीं एजीएम की सचना देखें।

कंपनी सदस्यों को नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से सीधे इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाभांश के प्रेषण की सुविधा प्रदान करती है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण (कोर बैंकिंग समाधान सक्षम खाता संख्या, 9 अंकों का एमआईसीआर और 11 अंकों का आईएफएससी कोड़) आरटीए को अपने फोलियो नंबर के साथ प्रदान करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को उक्त विवरण प्रदान करें।

एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, यदि कंपनी किसी शेयरधारक को उनके नवीनतम बैंक खाते के विवरण (कोर बैंकिंग समाधान सक्षम खाता संख्या, 9 अंक का एमसीआर और 11 अंक का आईएफएससी कोड) की

अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो कंपनी ऐसे शेयरधारकों को डाक द्वारा लाभांश वारंट/चेक भेजेगी। उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए

कृते मवाना शुगर्स लिमिटेड

(अशोक कुमार शुक्ला) कंपनी सचिव

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमन्त्रण [ दिवाला तथा दिवालिया ( कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया )

विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत]

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है। कार्पोरेट ऋणधारक का कार्पोरेट पहचान U63090DL2006PTC152804 संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता प्रधान कार्यालय : लाग नहीं आंरभ होने की तिथि (आदेश की प्रति 23.6.2022 को प्राप्त की गई) केडीटरों की समिति की 2री (द्वितीय) बैठक में सीओसी के सदर प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: ने दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 23(2)(एच) वे अंतर्गत कोई योग्यता मानक निर्धारित नहीं किये तथा इच्छुक बोर्ल दाता लागू कानून की शर्त के अधीन अभिरुचि की अभिव्यक्ति दाखिल कर सकते हैं। आईबीबीआई की वेबसाईट (https://www.ibbi.gov.in/legal framework/act) पर उपलब्ध है। कृपया दिवाला एवं दिवालिया संहिता अयोग्यता का मानक उपलब्ध हैं : 2006 का नवीनतम वर्जन देखें। आगे स्पष्टीकरण cirp.larklogistic @gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है। सची जारी होने की तिथि जारी होने की तिथि योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 5. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन योग्य संभावित प्रस्ताव आवदेकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने साझा की जाएगी। 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अन्तिम तिथि 3.11.2022 प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध आरएफआरपी के क्लॉज 1.7 के अनुसार अथवा ऊपर कॉलम नं. 15 के अनुसार। 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 ँपता : बी-1/10, निम्न भृतल, हौज खास, दक्षिण, नई दिल्ली, पता तथा ई-मेल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110016 ईमेल : variety.financial@gmail.com 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रय ॅंपता : बी-1/10, निम्न भूतल, हौज खास, दक्षिण, नई दिल्ली, करने के लिये पता तथा ई-मेल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110016 ईमेल : cirp.larklogistics@gmail.com विस्तृत विवरण cirp.larklogistics@gmail.com प ईमेल भेजकर मांगी जा सकती है। विशेष रूप से विस्तृत ईओआई cirp.larklogistics@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए(7) के अनुसार जमा की जानी चाहिये।

> प्रमोद कुमार गुप्ता प्रस्ताव कमी

पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 एएफए वैधता : एएफए : AA1/12075/02/231222/103676; वैधता : 24.12.2021 से 23.12.2022

बी-1/10, निम्न भूतल, हौज खास, दिल्ली-110016

लार्क लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीनस्थ

तिथि : 4.9.2022 स्थान : दिल्ली ईमेल : variety.financial@gmail.com

अपोली पाइप्स लिमिटेड APL APOLLO

सीआईएन : L65999DL1985PLC022723

पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोविन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. ए-140, सेक्टर-136, नोएडा-201301 दूरभाष : +91-11-22373437/91-120-6587777, फैक्स नं. : +91-11-22373537 वेबसाइट : www.apollopipes.com ई-मेल : compliance@apollopipes.com

36वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सचना यह हमारी पूर्व की सूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2022 की निरन्तरता में है जिसके द्वारा अपोलो पाइप्स लिमिटे (''कम्पनी'') के सदस्यों को सुचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') वे प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021, दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथ भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (''सेर्ब परिपत्र'') के अनुपालन में 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') सुविधा के माध्यम से कम्पनी की 36वीं वार्षिक

आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. आयोजित करने का निर्णय 36वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यें के पास ई-मेल द्वारा 3 सितम्बर, 2022 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी अथवा रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं, और यह कम्पनी की वेबसाइट www.apollopipes.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटर्र सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध हैं। किन्तु कोई सदस्य 36वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी के लिए

compliance@apollopipes.com पर ई-मेल भेजकर अनुरोध कर सकता है। कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, के विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक-तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 36वीं एजीएम में निर्धारित समस्त संकल्पों पर सीडीएसएर द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से सदस्यें

को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध की गयी है। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 (10.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 26 सितम्बर 2022 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान कर सकते हैं। इसके

पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश, जिसका नाममात्र मूल्य

10/- रुपये है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित है, अगर एजीएम में घोषित किया जाता है, तो आयक अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती के बाद उन सदस्यों को जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 तक दर्ज हैं, या उनके मैंडेट में एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा/प्रेषित किया जाएगा। सदस्यों द्वारा अभौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, इस प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरी से प्राप्त होने वाले 20 सितंबर, 2022 तक लाभार्थी स्वामित्व के विवरण के आधार पर लाभांश जमा/प्रेषित किया जाएगा।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. 36वीं एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के

2. जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से समझना चाहिए

3. कोई भी व्यक्ति, जो 36वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करत है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है. 36वीं एजीएम की सचन में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और

पासवर्ड का उपयोग कर सकता है: तथा . सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्युल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि औ समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट डालने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी: ख) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वार अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दुबारा वोट देने के हकदा नहीं होंगे: ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी: और घ) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रिजस्टर में कट-ऑफ तक दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग की सुविधा क

लाभ उठाने का हकदार होगा। यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण

प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें : भौतिक | कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति धारिता (सामने तथा पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी कं

compliance@apollopipes.com या आरटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें डीमैट कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण

की प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी कं compliance@apollopipes.com या आरटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें। सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा श्री जितन गुप्ता, कार्यरत कम्पर्न सचिव (सदस्य सं. : एफसीएस 5661, सीओपी नं. 5236) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के भीतर यानी 29 सितंबर, 2022 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणामों को समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.apollopipes.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रखा जायेगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर प्रस्तुत किया जायेगा, जह

एजीएम में शामिल होने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए

सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं य helpdesk.evoting@cdslindian.com पर ई-मेल लिखें या टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल करें कृते एवं हिते

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

अंकित शम कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. : ACS-47854

STARLIT

स्टारलिट पॉवर सिस्टम्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-1851, एलजीएफ, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029

**सीआईएन :** L37200DL2008PLC174911, दूरभाष नं. रू 011–26102670

वेबसाइट: www.starlitpower.com, ई-मेल: secretarial@starlitgroup.net

14वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन–देन करने के लिए

स्टारलाइट पावर सिस्टम्स लिमिटेड ('daiuht) के सदस्यों की चौदहवीं(14वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम

या मीटिंग) बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को सुबह 10.00 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस /अन्य

ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा

दिनांक नवीनतम् २ / २०२२ दिनांक ५ मई. २०२२ के साथ पठित ८ अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२०, ५

मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 (सामुहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और भारतीय

प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी,

2021 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीप्आरपी / पी / 2022 / 62 दिनांक 13

मई. २०२२ के अनुसार, कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट २०२१–२२ के साथ १४वीं एजीएम की सूचना, केवल

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों को भेजी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रिजस्ट्रार और

ट्रांसफर एजेंट (रजिस्ट्रार) और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां

भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22, अन्य बातों के साथ–साथ, 14वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक

विवरण कंपनी की वेबसाइट www.starlitpower.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108. इंस्टीट्यट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी

सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं)

विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी आगामी एजीएम में अपने वोट का प्रयोग करने

के लिए बुधवार, 21 सितंबर, 2022 के कट ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखने वाले अपने सदस्यों

को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक के स्थान (ई–वोटिंग) के अलावा किसी अन्य

स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। कंपनी

|रिमोट ई—वोटिंग प्रारम्भ होना |रविवार, 25 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे पूर्वा. मा.मा.स.)

रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.)

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की अनमति . 27 सितम्बर, 2022 को सायं 05रू00 बजे के बाद नहीं

दी जाएगी। एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा

2. सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट—ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2022 को कंपनी की चुकता इक्विटी

शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा भी इस

दौरान उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट

ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने में

सक्षम होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टरध्लाभार्थी स्वामियों

के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम से पूर्वध्दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने

का पात्र होगा। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी

इलेक्टॉनिक रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे फिर से मतदान करने के हकदार नहीं

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ

तिथि यानी 21 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह helpdesk@cdslindia.com या

secretarial@starlitgroup.net पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता

है।सदस्यों से अनुरोध हैिक वे http://www.evotingindiacom@ पर दूरस्थ लॉगिन क्रेडेंशियल

का उपयोग करके लॉग इन करें। बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक

भागीदारी के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध होगा जहां कंपनी का

ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियक्ति की सविधा उपलब्ध नहीं होगी

जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य

सश्री दसविंदर कौर, प्रोप्रिएटर , डी.के. चावला एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी–इन–प्रैक्टिस (सीपी नंबर

15232), को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ

प्रबंधक, (सीडीएसएल),सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन

रूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 को

संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या या टोल

फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल करें। इसके अलावा, सदस्य श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक, बिगशेयर

सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए से भी mukesh@bigshareonline.com पर या टेलीफोन

परिणामों की घोषणा बैठक के समापन से अधिकतम अडतालीस घंटे के भीतर कर दी जायेगी जिसे

बीएसई लिमिटेड के साथ दाखिल कराने के उपरान्त कंपनी की वेबसाइट

(www.starlitpower.com) पर पोस्ट किया जायेगा। इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल–आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई

**भौतिक धारिता** ईमेल पता पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और अन्तरण एजेंट, बिगशेयर

**डीमैट धारिता** डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 से बुधवार, 28

वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी शेयरधारक ⁄ सदस्य, जो बोलना या

प्रश्न करना चाहते हैं. वे 21 सितंबर, 2022 को या उससे पहले अपने फोलियो नंबर, डीपी

आईडी / क्लाइंट आईडी, ई–मेल आईडी और मोबाइल नं. के साथ कंपनी की ई–मेल आईडी पर यानी

सितंबर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक 14वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

(आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी) संलग्न हो।

सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को mukesh@bigshareonline.com पर एक अनुरोध

भेजें. जिसके साथ फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन

की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार

कृपया अपने बैंक विवरण को मूल कैंसिल्ड चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, टी 302, कुशल बाजार 32–33, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली –110019) के पास फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र भेजें (यदि

प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे

अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके अपने ईमेल

पते को पंजीकृत / अपडेट करें, जिनके साथ उनके डीमैट खाते अनुरक्षित हैं।

क्योंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं।

के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

नंबररू 011–42425004 पर संपर्क कर सकते हैं।

पहले से पंजीकृत नहीं है)

secretarial@starlitgroup.net स्वयं को पंजीकृत करेंगे।

प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकत करें:


अधिनियम. 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान उपलब्ध होगीः

www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है।

दिनांक : 03.09.2022 स्थान : नई दिल्ली



स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एम. नंबर : ए62134

लॉरी एंड कंपनी लि. (भारत सरकार का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001,

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.

सीआईएनः L15492WB1924GOI004835

दुरमाष सं.: 033 22225313, 033 22225731, ईमेल: bhavsar.k@balmerlawrie.com, वेबसाइट: www.balmerlawrie.com

पीयुष गर्ग

105वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की तथा ई—वोटिंग की जानकारी

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 105वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन मंगलवार 27 सितंबर 2022 को दोपहर 12 बजे भा.मा.स. पर द्वि–विकल्पीय वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य दृश्य–श्रव्य संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किया जाएगा। यह आयोजन् इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20 / 2020 दिनांकित 5 मई 2020 एवं 2 / 2022 दिनांकित 5 मई 2022 और अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप में ''एमसीए परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित संबद्ध नियमावली के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम आयोजनकारी सुचना में निर्धारित

व्यवसायों का लेन–देन करने के लिए किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021—22 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र संदर्भ सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 के अनुसार निर्धारित प्रविधि के अंतर्गत शनिवार 3 सितंबर 2022 को उन अंशधारकों को प्रेषित कर दिया गया है जो कट—ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 19 अगस्त 2022 (दिवस का समापन) के अनुसार कंपनी के अंशों को धारण किए हुए हैं। सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/pages/annualreport पर, स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के समता अंश सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (''एनएसडीएल'') (वीसी/ओएवीएम एवं ई—वोटिंग सुविधा उपलब्ध

करानेवाला अभिकरण अर्थात् एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी, अपने सदस्यों को एजीएम में पारित होने के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''ई—वोटिंग'') द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण, यहां इसमें निम्न अंकित तिथियों पर एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई–वोटिंग'') का उपयोग करके दूर से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जाएगी और एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना / अपने वोट नहीं डाला / डाले हैं, वे एजीएम में वोट डालने में समर्थ होंगे। एजीएम में उपस्थित होने तथा

ई–वोटिंग के संबंध में विस्तृत अनुदेश, एजीएम की सूचना में उल्लिखित हैं।

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगीः रिमोट ई—वोटिंग का प्रारंभन : शक्रवार 23 सितंबर 2022 को प्रातः 09.00 बजे

रिमोट ई—वोटिंग का समापन : सोमवार 26 सितंबर 2022 को सायं 05.00 बजे व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार 20 सितंबर 2022 (दिवस का समापन) के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित पाया जाता है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का

उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरांत रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उपर्युक्त अवधि के समाप्त होते ही तित्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कट—ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार 20 सितंबर 2022 (दिवस का समापन) के अनुसार भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में

अंशों का धारण करनेवाले सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने वोट डाल सकते हैं। सदस्य जो भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए हैं अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे एजीएम की उपर्युक्त सूचना में समाविष्ट

अनुदेशों के अनुसार रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई गई ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। कंपनी के सदस्यगण जो भौतक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपने ई—मेल पतों का पंजीकरण करवाने के लिए निम्नवर्णित विवरणों पर मैसर्स केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में विदित),

युनिट – बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंशांतरण अभिकर्ता (आरटीए) से संपर्क करें: i. सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर—बी, भूखंड सं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना—500032 अथवा 2/1, रसेल

स्ट्रीट, चतुर्थ तल, कंकरिया सेंटर, कोलकाता 700016 ii. दूरभाष संख्या — 18003094001,

iii. ई—मेल : einward.ris@kintech.com

|दिनांकः 04 सितंबर, 2022

www.readwhere.com

सदस्य, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरांत भी एजीएम में भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे सभा में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषणोपरांत अंशों का उपार्जन करता है और कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार 20 सितंबर 2022 (दिवस

का समापन) के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। संपर्क विवरण : ई—वोटिंग के संदर्भ में किसी पूछताछ / शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण एनएसडीएल की ई—वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अंशधारकों हेतु तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा अंशधारकों हेतु ई–वोटिंग प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in, पता — ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमाला मिल्स कंपाउंड, लोवर परेल, मुंबई—400013 पर एक निवेदन भेज सकते हैं।

सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंशांतरण बहियां, बूधवार 21 सितंबर 2022 से लेकर के मंगलवार 27 सितंबर 2022 (दोनों दिवस सिम्मलित) तक बंद रहेंगी। सदस्यों द्वारा की जानेवाली घोषणा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021—22 के लाभांश का भुगतान, ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिवसों की सांविधिक समय—सीमा के अंदर, उन अंशधारकों को किया जाएगा जो कट—ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार 20 सितंबर 2022 (दिवस का समापन) के अनुसार कंपनी के अंशों का धारण किए हुए हैं।

सुश्री बिनीता पांडे, मैसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएटस की साझीदार, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. ए४१५९४ एवं सीपी नं. १९७७०) को ई—वोटिंग प्रक्रिया का संचालन समुचित एवं पारदर्शी विधि के अंतर्गत सुनिश्चित कराने के लिए एक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। कृते बामर लॉरी एंड कंपनी लि.

> कविता भावसार कंपनी सचिव एफ4767







स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 03.09.2022

परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

एसीएस: 29673

तिथि : 03 सितम्बर, 2022

स्थान : दिल्ली

फोन नं. +91-9810276808